

## परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

| मद                                                                                       | त्रिपुरा          |                         |                             |                         | उत्तराखण्ड        |                         |                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                                          | 2007-08<br>(लेखा) | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) | 2007-08<br>(लेखा) | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) |
| 1                                                                                        | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       |
| <b>कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)</b>                                                 | <b>1,614,741</b>  | <b>1,531,200</b>        | <b>1,651,090</b>            | <b>1,567,984</b>        | <b>4,204,232</b>  | <b>1,212,501</b>        | <b>1,245,843</b>            | <b>1,476,396</b>        |
| <b>कुल पूंजी प्राप्तियां<br/>(शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*</b>                          | <b>-14,492</b>    | <b>25,300</b>           | <b>19,531</b>               | <b>69,701</b>           | <b>178,153</b>    | <b>170,593</b>          | <b>203,934</b>              | <b>306,649</b>          |
| <b>I. बाह्य ऋण #</b>                                                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| <b>II. आंतरिक ऋण (1 से 8)</b>                                                            | <b>5,009</b>      | <b>20,000</b>           | <b>22,100</b>               | <b>45,000</b>           | <b>189,298</b>    | <b>136,627</b>          | <b>160,632</b>              | <b>245,813</b>          |
| 1. बाजार ऋण                                                                              | -                 | 12,000                  | 15,600                      | 35,000                  | 82,839            | 70,000                  | 101,069                     | 138,646                 |
| 2. एलआईसी से ऋण                                                                          | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण                                                           | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण                                            | 3,099             | 6,000                   | 6,000                       | 8,000                   | 14,942            | 21,175                  | 19,213                      | 20,570                  |
| 5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण                                                     | -                 | -                       | -                           | -                       | 136               | 1,452                   | 1,452                       | 1,597                   |
| 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम                                                 | -                 | -                       | -                           | -                       | 68,365            | 20,000                  | 20,000                      | 70,000                  |
| 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां                                                   | 1,581             | 2,000                   | 500                         | 2,000                   | 23,016            | 24,000                  | 18,898                      | 15,000                  |
| 8. अन्य @<br>जिसमें से:                                                                  | 329               | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| भूमि मुआवजा और अन्य बांड                                                                 | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| <b>III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)</b>                                             | <b>329</b>        | <b>-</b>                | <b>225</b>                  | <b>800</b>              | <b>1,636</b>      | <b>2,931</b>            | <b>2,931</b>                | <b>9,622</b>            |
| 1. राज्य योजना स्कीमें<br>जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम | 40                | -                       | 225                         | 800                     | 857               | 2,931                   | 2,931                       | 9,622                   |
| 2. केन्द्रीय योजना स्कीमें                                                               | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें                                                             | 289               | -                       | -                           | -                       | 471               | -                       | -                           | -                       |
| 4. योजनेतर (i से ii)<br>(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत<br>(ii) अन्य                    | -                 | -                       | -                           | -                       | 308               | -                       | -                           | -                       |
| 5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम                                                            | -                 | -                       | -                           | -                       | 308               | -                       | -                           | -                       |
| 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण                                                               | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| <b>IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)</b>                                           | <b>327</b>        | <b>300</b>              | <b>300</b>                  | <b>300</b>              | <b>6,843</b>      | <b>26,024</b>           | <b>6,160</b>                | <b>10,714</b>           |
| 1. आवास                                                                                  | 10                | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 2. शहरी विकास                                                                            | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 3. फसल उत्पादन                                                                           | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | 35                      | -                           | -                       |
| 4. खाद्य संग्रहण और भंडारण                                                               | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 5. सहकारिता                                                                              | 5                 | -                       | -                           | -                       | 110               | 41                      | 111                         | 95                      |
| 6. लघु सिंचाई                                                                            | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 7. विद्युत परियोजनाएं                                                                    | -                 | -                       | -                           | -                       | 6,026             | 9,000                   | 5,220                       | 9,737                   |
| 8. ग्रामीण और लघु उद्योग                                                                 | -                 | -                       | -                           | -                       | 5                 | 15,000                  | 1                           | 1                       |
| 9. उद्योग और खनिज                                                                        | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 10. सड़क परिवहन                                                                          | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 11. सरकारी कर्मचारी, आदि+                                                                | 312               | 300                     | 300                         | 300                     | 702               | 1,923                   | 828                         | 881                     |
| 12. अन्य **                                                                              | -                 | -                       | -                           | -                       | 1                 | 25                      | -                           | -                       |
| <b>V. अन्तरराज्यीय निपटारा</b>                                                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| <b>VI. आकस्मिकता कोष</b>                                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>2,721</b>      | <b>2,500</b>            | <b>6,000</b>                | <b>3,400</b>            |
| <b>VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)</b>                                             | <b>39,954</b>     | <b>41,350</b>           | <b>34,361</b>               | <b>36,034</b>           | <b>44,927</b>     | <b>33,146</b>           | <b>48,846</b>               | <b>97,970</b>           |
| 1. राज्य भविष्य निधि                                                                     | 39,619            | 41,000                  | 33,985                      | 35,684                  | 43,659            | 32,690                  | 48,390                      | 97,050                  |
| 2. अन्य                                                                                  | 335               | 350                     | 376                         | 350                     | 1,268             | 457                     | 457                         | 920                     |
| <b>VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)</b>                                                    | <b>1,854</b>      | <b>1,500</b>            | <b>3</b>                    | <b>5</b>                | <b>19,320</b>     | <b>21,000</b>           | <b>21,000</b>               | <b>15,000</b>           |
| 1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां                                                     | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 2. ऋणशोधन निधि                                                                           | -                 | -                       | -                           | -                       | 8,894             | 8,000                   | 8,000                       | 2,000                   |
| 3. अकाल राहत कोष                                                                         | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 4. अन्य                                                                                  | 1,854             | 1,500                   | 3                           | 5                       | 10,426            | 13,000                  | 13,000                      | 13,000                  |
| <b>IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)</b>                                                        | <b>19,945</b>     | <b>19,000</b>           | <b>29,320</b>               | <b>26,810</b>           | <b>182,844</b>    | <b>171,928</b>          | <b>171,928</b>              | <b>161,815</b>          |
| 1. सिविल जमा राशियां                                                                     | 6,180             | 5,000                   | 14,180                      | 13,000                  | 110,431           | 67,128                  | 67,128                      | 101,390                 |
| 2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां                                                        | 12,124            | 13,000                  | 10                          | 5                       | 56,468            | 104,800                 | 104,800                     | 54,425                  |
| 3. सिविल अग्रिम                                                                          | 1,641             | 1,000                   | 15,129                      | 13,805                  | 13,048            | -                       | -                           | -                       |
| 4. अन्य                                                                                  | -                 | -                       | -                           | -                       | 2,897             | -                       | -                           | 6,000                   |
| <b>X. उचित और विविध (1 से 4)</b>                                                         | <b>1,466,593</b>  | <b>1,404,040</b>        | <b>1,492,430</b>            | <b>1,407,025</b>        | <b>3,469,162</b>  | <b>616,792</b>          | <b>616,792</b>              | <b>602,260</b>          |
| 1. उचित                                                                                  | 7,228             | 4,000                   | 10,594                      | 7,000                   | 3,722             | 22,572                  | 22,572                      | 2,260                   |
| 2. नकद शेष निवेश लेखा                                                                    | 1,459,266         | 1,400,000               | 1,481,814                   | 1,400,000               | 788,844           | -                       | -                           | -                       |
| 3. आरबीआई के साथ जमा                                                                     | -                 | -                       | -                           | -                       | 1,967,619         | -                       | -                           | -                       |
| 4. अन्य                                                                                  | 99                | 40                      | 22                          | 25                      | 708,978           | 594,220                 | 594,220                     | 600,000                 |
| <b>XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन</b>                                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| <b>XII. विविध पूंजी प्राप्तियां</b>                                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>10,000</b>               | <b>30,000</b>           |
| जिसमें से: विनिवेश                                                                       | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| <b>XIII. विप्रेषण</b>                                                                    | <b>80,728</b>     | <b>45,010</b>           | <b>72,350</b>               | <b>52,010</b>           | <b>287,481</b>    | <b>201,553</b>          | <b>201,553</b>              | <b>299,802</b>          |

### परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

| मद                                                             | उत्तर प्रदेश      |                         |                             |                         | पश्चिम बंगाल      |                         |                             |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                | 2007-08<br>(लेखा) | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) | 2007-08<br>(लेखा) | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) |
| 1                                                              | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       |
| <b>कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)</b>                       | <b>48,587,098</b> | <b>22,234,419</b>       | <b>21,692,836</b>           | <b>23,742,916</b>       | <b>16,640,922</b> | <b>18,042,199</b>       | <b>18,828,426</b>           | <b>21,297,524</b>       |
| <b>कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*</b>    | <b>1,834,346</b>  | <b>1,699,712</b>        | <b>1,981,845</b>            | <b>2,727,812</b>        | <b>1,726,326</b>  | <b>1,680,759</b>        | <b>2,240,467</b>            | <b>2,560,772</b>        |
| <b>I. बाह्य ऋण #</b>                                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| <b>II. आंतरिक ऋण (1 से 8)</b>                                  | <b>870,973</b>    | <b>2,392,998</b>        | <b>1,070,498</b>            | <b>2,545,670</b>        | <b>2,754,213</b>  | <b>1,656,839</b>        | <b>2,498,428</b>            | <b>3,178,156</b>        |
| 1. बाजार ऋण                                                    | 442,200           | 709,933                 | 709,933                     | 930,636                 | 1,251,793         | 1,074,020               | 1,239,746                   | 1,494,751               |
| 2. एलआईसी से ऋण                                                | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण                                 | 170,000           | 150,000                 | 150,000                     | 200,000                 | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण                  | 56,097            | 55,000                  | 75,000                      | 144,446                 | 19                | 1,000                   | 400                         | 500                     |
| 5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण                           | 1,944             | 1,566                   | 1,566                       | 588                     | 1,566             | 1,689                   | 2,152                       | 1,775                   |
| 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम                       | -                 | 1,000,000               | -                           | 1,000,000               | 1,286,380         | 100,000                 | 900,000                     | 900,000                 |
| 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां                         | 195,569           | 460,000                 | 125,000                     | 260,000                 | 76,765            | 300,000                 | 200,000                     | 600,000                 |
| 8. अन्य @                                                      | 5,163             | 16,500                  | 9,000                       | 10,000                  | 137,689           | 180,130                 | 156,130                     | 181,130                 |
| जिसमें से:                                                     |                   |                         |                             |                         |                   |                         |                             |                         |
| भूमि मुआवजा और अन्य बांड                                       | 1,360             | -                       | -                           | -                       | -                 | 30                      | 30                          | 30                      |
| <b>III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)</b>                   | <b>36,897</b>     | <b>50,265</b>           | <b>50,265</b>               | <b>100,265</b>          | <b>65,430</b>     | <b>56,863</b>           | <b>52,692</b>               | <b>62,170</b>           |
| 1. राज्य योजना स्कीमें                                         | 35,467            | 50,000                  | 50,000                      | 100,000                 | 64,783            | 56,863                  | 52,692                      | 62,170                  |
| जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 2. केन्द्रीय योजना स्कीमें                                     | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें                                   | 1,431             | -                       | -                           | -                       | 647               | -                       | -                           | -                       |
| 4. योजनेतर (i से ii)                                           | -                 | 265                     | 265                         | 265                     | -                 | -                       | -                           | -                       |
| (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत                               | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| (ii) अन्य                                                      | -                 | 265                     | 265                         | 265                     | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम                                  | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण                                     | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| <b>IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)</b>                 | <b>44,861</b>     | <b>58,888</b>           | <b>59,993</b>               | <b>60,377</b>           | <b>49,664</b>     | <b>6,334</b>            | <b>517,868</b>              | <b>6,334</b>            |
| 1. आवास                                                        | 2,546             | 5,986                   | 5,986                       | 5,986                   | 1,259             | 150                     | 150                         | 150                     |
| 2. शहरी विकास                                                  | 4,986             | 1,293                   | 1,293                       | 1,293                   | -                 | 95                      | 95                          | 95                      |
| 3. फसल उत्पादन                                                 | 16                | 171                     | 171                         | 171                     | 201               | 50                      | 50                          | 50                      |
| 4. खाद्य संग्रहण और भंडारण                                     | 5                 | 14                      | 14                          | 14                      | -                 | 4                       | 4                           | 4                       |
| 5. सहकारिता                                                    | 2,538             | 1,252                   | 1,252                       | 1,252                   | 143               | 275                     | 275                         | 275                     |
| 6. लघु सिंचाई                                                  | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | 7                       | 7                           | 7                       |
| 7. विद्युत परियोजनाएं                                          | -                 | 854                     | 854                         | 854                     | 43,991            | -                       | 487,450                     | -                       |
| 8. ग्रामीण और लघु उद्योग                                       | 574               | 2,106                   | 2,177                       | 2,106                   | 37                | 108                     | 108                         | 108                     |
| 9. उद्योग और खनिज                                              | 28,337            | 32,642                  | 32,642                      | 32,642                  | 691               | 1,245                   | 24,947                      | 1,245                   |
| 10. सड़क परिवहन                                                | -                 | 49                      | 49                          | 49                      | -                 | 200                     | 200                         | 200                     |
| 11. सरकारी कर्मचारी, आदि+                                      | 3,768             | 4,450                   | 4,450                       | 4,905                   | 3,325             | 4,000                   | 4,000                       | 4,000                   |
| 12. अन्य **                                                    | 2,090             | 10,071                  | 11,105                      | 11,105                  | 17                | 200                     | 582                         | 200                     |
| <b>V. अन्तरराज्यीय निपटारा</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| <b>VI. आकस्मिकता कोष</b>                                       | <b>60,378</b>     | <b>1,000</b>            | <b>47,693</b>               | <b>1,000</b>            | <b>716</b>        | <b>-</b>                | <b>731</b>                  | <b>-</b>                |
| <b>VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)</b>                   | <b>531,205</b>    | <b>466,694</b>          | <b>691,694</b>              | <b>928,162</b>          | <b>125,807</b>    | <b>139,005</b>          | <b>137,705</b>              | <b>219,505</b>          |
| 1. राज्य भविष्य निधि                                           | 515,293           | 451,980                 | 667,980                     | 884,020                 | 124,075           | 136,005                 | 136,005                     | 217,605                 |
| 2. अन्य                                                        | 15,913            | 14,714                  | 23,714                      | 44,142                  | 1,732             | 3,000                   | 1,700                       | 1,900                   |
| <b>VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)</b>                          | <b>401,902</b>    | <b>472,360</b>          | <b>464,320</b>              | <b>690,961</b>          | <b>100,160</b>    | <b>139,877</b>          | <b>127,830</b>              | <b>136,186</b>          |
| 1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां                           | 12,015            | 12,000                  | 4,000                       | 1,000                   | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 2. ऋणशोधन निधि                                                 | 305,793           | 316,379                 | 316,379                     | 486,662                 | 42,256            | 82,200                  | 67,200                      | 73,200                  |
| 3. अकाल राहत कोष                                               | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| 4. अन्य                                                        | 84,094            | 143,981                 | 143,941                     | 203,299                 | 57,904            | 57,677                  | 60,630                      | 62,986                  |
| <b>IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)</b>                              | <b>1,945,025</b>  | <b>587,845</b>          | <b>778,439</b>              | <b>901,389</b>          | <b>2,133,262</b>  | <b>2,053,422</b>        | <b>2,192,032</b>            | <b>2,621,487</b>        |
| 1. सिविल जमाराशियां                                            | 1,079,637         | 297,406                 | 391,500                     | 445,650                 | 270,474           | 300,071                 | 284,930                     | 328,685                 |
| 2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां                               | 827,301           | 290,439                 | 376,939                     | 426,939                 | 453,111           | 480,061                 | 470,000                     | 540,700                 |
| 3. सिविल अग्रिम                                                | 27,670            | -                       | -                           | -                       | 25,120            | 25,006                  | 25,102                      | 30,102                  |
| 4. अन्य                                                        | 10,418            | -                       | 10,000                      | 28,800                  | 1,384,557         | 1,248,285               | 1,412,000                   | 1,722,000               |
| <b>X. उचित और विविध (1 से 4)</b>                               | <b>43,367,771</b> | <b>17,952,869</b>       | <b>18,278,434</b>           | <b>18,263,592</b>       | <b>11,046,428</b> | <b>13,618,966</b>       | <b>12,936,368</b>           | <b>14,698,517</b>       |
| 1. उचित                                                        | -1,635,989        | 75,015                  | 75,015                      | 75,015                  | -15,214           | 2,810                   | 2,737                       | 2,386                   |
| 2. नकद शेष निवेश लेखा                                          | 15,341,693        | 15,000,000              | 15,000,000                  | 15,000,000              | 1,634,883         | 1,200,000               | 2,032,800                   | 2,300,000               |
| 3. आरबीआई के साथ जमा                                           | 24,439,058        | -                       | -                           | -                       | 7,036,935         | 9,900,000               | 8,500,000                   | 9,900,000               |
| 4. अन्य                                                        | 5,223,010         | 2,877,854               | 3,203,419                   | 3,188,577               | 2,389,824         | 2,516,156               | 2,400,832                   | 2,496,132               |
| <b>XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| <b>XII. विविध पूंजी प्राप्तियां</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                |
| जिसमें से: विनिवेश                                             | -                 | -                       | -                           | -                       | -                 | -                       | -                           | -                       |
| <b>XIII. विप्रेषण</b>                                          | <b>1,328,085</b>  | <b>251,500</b>          | <b>251,500</b>              | <b>251,500</b>          | <b>365,243</b>    | <b>370,894</b>          | <b>364,773</b>              | <b>375,169</b>          |

## परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

| मद                                                                | सभी राज्य         |                         |                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                   | 2007-08<br>(लेखा) | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) |
| 1                                                                 | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       |
| कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)                                 | 231,007,573       | 145,380,649             | 166,291,309                 | 162,578,119             |
| कुल पूंजी प्राप्तियां<br>(शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*           | 14,198,716        | 17,530,616              | 18,620,063                  | 22,511,428              |
| I. बाह्य ऋण #                                                     | —                 | —                       | —                           | —                       |
| II. आंतरिक ऋण (1 से 8)                                            | 11,953,277        | 15,887,538              | 16,286,270                  | 22,089,938              |
| 1. बाजार ऋण                                                       | 6,651,287         | 7,602,661               | 11,280,544                  | 12,900,535              |
| 2. एलआईसी से ऋण                                                   | 58,136            | 67,358                  | 57,008                      | 47,008                  |
| 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण                                    | 170,000           | 286,600                 | 170,000                     | 354,109                 |
| 4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास<br>बैंक से ऋण                  | 859,211           | 1,149,449               | 1,229,398                   | 1,269,401               |
| 5. राष्ट्रीय सहकारी विकास<br>निगम से ऋण                           | 64,092            | 93,984                  | 87,385                      | 71,247                  |
| 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम                          | 2,338,337         | 3,290,320               | 1,999,725                   | 4,991,651               |
| 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां                            | 1,109,383         | 2,948,423               | 1,020,410                   | 1,888,150               |
| 8. अन्य @                                                         | 702,831           | 448,743                 | 441,800                     | 567,838                 |
| जिसमें से:                                                        |                   |                         |                             |                         |
| भूमि मुआवजा और अन्य बांड                                          | 208,434           | 35                      | 35                          | 33                      |
| III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)                             | 725,155           | 1,534,803               | 978,634                     | 1,728,436               |
| 1. राज्य योजना स्कीमें                                            | 704,440           | 1,481,164               | 954,407                     | 1,672,446               |
| जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से<br>जारी अग्रिम | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 2. केन्द्रीय योजना स्कीमें                                        | 2,407             | 6,461                   | 10,944                      | 7,544                   |
| 3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें                                      | 16,605            | 9,921                   | 8,237                       | 7,754                   |
| 4. योजनेतर (i से ii)                                              | 1,663             | 1,257                   | 4,046                       | 4,692                   |
| (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत                                  | —                 | —                       | —                           | —                       |
| (ii) अन्य                                                         | 1,663             | 1,257                   | 4,046                       | 4,692                   |
| 5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम                                     | —                 | 36,000                  | 1,000                       | 36,000                  |
| 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण                                        | 39                | —                       | —                           | —                       |
| IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)                           | 777,020           | 517,162                 | 1,156,846                   | 460,869                 |
| 1. आवास                                                           | 15,229            | 26,009                  | 64,582                      | 24,653                  |
| 2. शहरी विकास                                                     | 8,662             | 26,273                  | 25,689                      | 28,227                  |
| 3. फसल उत्पादन                                                    | 1,187             | 832                     | 3,785                       | 4,007                   |
| 4. खाद्य संग्रहण और भंडारण                                        | 107,613           | 126,038                 | 125,016                     | 125,300                 |
| 5. सहकारिता                                                       | 14,554            | 21,485                  | 15,663                      | 16,551                  |
| 6. लघु सिंचाई                                                     | 6                 | 113                     | 113                         | 125                     |
| 7. विद्युत परियोजनाएं                                             | 417,685           | 75,995                  | 689,274                     | 49,567                  |
| 8. ग्रामीण और लघु उद्योग                                          | 11,490            | 28,066                  | 18,317                      | 14,415                  |
| 9. उद्योग और खनिज                                                 | 62,725            | 39,638                  | 63,464                      | 41,548                  |
| 10. सड़क परिवहन                                                   | 241               | 249                     | 341                         | 249                     |
| 11. सरकारी कर्मचारी, आदि+                                         | 82,442            | 121,821                 | 108,428                     | 107,251                 |
| 12. अन्य **                                                       | 55,186            | 50,642                  | 42,176                      | 48,974                  |
| V. अन्तरराज्यीय निपटारा                                           | 362               | 59                      | 58                          | 17                      |
| VI. आकस्मिकता कोष                                                 | 152,285           | 90,610                  | 178,528                     | 151,582                 |
| VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)                             | 4,333,677         | 4,604,684               | 5,009,225                   | 5,884,024               |
| 1. राज्य भविष्य निधि                                              | 3,332,259         | 3,427,131               | 3,663,451                   | 4,399,931               |
| 2. अन्य                                                           | 1,001,418         | 1,177,553               | 1,345,773                   | 1,484,094               |
| VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)                                    | 946,910           | 1,896,916               | 2,545,368                   | 2,453,689               |
| 1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां                              | 17,118            | 25,849                  | 18,151                      | 16,062                  |
| 2. ऋणशोधन निधि                                                    | 808,519           | 746,239                 | 698,428                     | 1,003,364               |
| 3. अकाल राहत कोष                                                  | -1,372            | 61                      | 40                          | 40                      |
| 4. अन्य                                                           | 122,644           | 1,124,766               | 1,828,749                   | 1,434,222               |
| IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)                                        | 23,010,669        | 18,285,179              | 20,734,954                  | 23,150,070              |
| 1. सिविल जमाराशियां                                               | 8,404,341         | 5,720,811               | 5,765,266                   | 6,398,821               |
| 2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां                                  | 10,923,554        | 9,233,100               | 10,941,637                  | 12,103,476              |
| 3. सिविल अग्रिम                                                   | 330,370           | 317,169                 | 269,324                     | 305,702                 |
| 4. अन्य                                                           | 3,352,404         | 3,014,100               | 3,758,726                   | 4,342,071               |
| X. उचित और विविध (1 से 4)                                         | 175,891,799       | 94,648,383              | 111,028,739                 | 97,999,988              |
| 1. उचित                                                           | -698,602          | 1,771,684               | 1,654,978                   | 1,729,535               |
| 2. नकद शेष निवेश लेखा                                             | 115,050,766       | 43,523,707              | 61,785,047                  | 53,359,045              |
| 3. आरबीआई के साथ जमा                                              | 35,577,326        | 32,231,443              | 23,651,230                  | 25,413,903              |
| 4. अन्य                                                           | 25,962,309        | 17,121,549              | 23,937,484                  | 17,497,506              |
| XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन                                   | 35,000            | —                       | —                           | —                       |
| XII. विविध पूंजी प्राप्तियां                                      | 695,524           | 1,500,000               | 531,417                     | 221,625                 |
| जिसमें से: विनिवेश                                                | 656,786           | 1,200,000               | 501,417                     | 1,525                   |
| XIII. विप्रेषण                                                    | 12,485,894        | 6,415,314               | 7,841,269                   | 8,437,882               |

### परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (समाप्त)

(लाख रुपए)

| मद                                                             | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |                         |                             |                         | पुदुचेरी          |                         |                             |                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                | 2007-08<br>(लेखा)                | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) | 2007-08<br>(लेखा) | 2008-09<br>(बजट अनुमान) | 2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2009-10<br>(बजट अनुमान) |
| 1                                                              | 2                                | 3                       | 4                           | 5                       | 2                 | 3                       | 4                           | 5                       |
| <b>कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)</b>                       | <b>97,728</b>                    | <b>29,775</b>           | <b>48,172</b>               | <b>31,839</b>           | <b>133,528</b>    | <b>429,988</b>          | <b>457,164</b>              | <b>722,266</b>          |
| <b>कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*</b>    | <b>97,728</b>                    | <b>29,775</b>           | <b>48,172</b>               | <b>31,839</b>           | <b>112,088</b>    | <b>135,119</b>          | <b>133,919</b>              | <b>123,725</b>          |
| <b>I. बाह्य ऋण #</b>                                           | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| <b>II. आंतरिक ऋण (1 से 8)</b>                                  | <b>74,602</b>                    | —                       | —                           | —                       | <b>33,700</b>     | <b>104,379</b>          | <b>103,352</b>              | <b>90,026</b>           |
| 1. बाजार ऋण                                                    | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 2. एलआईसी से ऋण                                                | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण                                 | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण                  | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण                           | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम                       | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां                         | 74,602                           | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 8. अन्य @ जिसमें से:                                           | —                                | —                       | —                           | —                       | 33,700            | 104,379                 | 103,352                     | 90,026                  |
| भूमि मुआवजा और अन्य बांड                                       | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| <b>III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)</b>                   | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>8,804</b>      | <b>18,200</b>           | <b>7,200</b>                | <b>13,200</b>           |
| 1. राज्य योजना स्कीमें                                         | —                                | —                       | —                           | —                       | 8,804             | 18,200                  | 7,200                       | 13,200                  |
| जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 2. केन्द्रीय योजना स्कीमें                                     | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें                                   | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 4. योजनेतर (i से ii)                                           | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत                               | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| (ii) अन्य                                                      | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम                                  | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण                                     | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| <b>IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)</b>                 | <b>23,126</b>                    | <b>29,775</b>           | <b>48,172</b>               | <b>31,839</b>           | <b>1,160</b>      | <b>600</b>              | <b>552</b>                  | <b>900</b>              |
| 1. आवास                                                        | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 2. शहरी विकास                                                  | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 3. फसल उत्पादन                                                 | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 4. खाद्य संग्रहण और भंडारण                                     | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 5. सहकारिता                                                    | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 6. लघु सिंचाई                                                  | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 7. विद्युत परियोजनाएं                                          | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 8. ग्रामीण और लघु उद्योग                                       | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 9. उद्योग और खनिज                                              | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 10. सड़क परिवहन                                                | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 11. सरकारी कर्मचारी, आदि+                                      | 343                              | 400                     | 300                         | 300                     | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 12. अन्य **                                                    | 22,783                           | 29,375                  | 47,872                      | 31,539                  | 1,160             | 600                     | 552                         | 900                     |
| <b>V. अन्तरराज्यीय निपटारा</b>                                 | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                |
| <b>VI. आकस्मिकता कोष</b>                                       | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                |
| <b>VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)</b>                   | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>29,425</b>     | <b>13,055</b>           | <b>17,159</b>               | <b>17,360</b>           |
| 1. राज्य भविष्य निधि                                           | —                                | —                       | —                           | —                       | 26,185            | 12,700                  | 16,800                      | 17,000                  |
| 2. अन्य                                                        | —                                | —                       | —                           | —                       | 3,239             | 355                     | 359                         | 360                     |
| <b>VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)</b>                          | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>1,200</b>            | <b>1,200</b>                | <b>300</b>              |
| 1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां                         | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 2. ऋणशोधन निधि                                                 | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | 1,200                   | 1,200                       | 300                     |
| 3. अकाल राहत कोष                                               | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| 4. अन्य                                                        | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| <b>IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)</b>                              | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>20,268</b>     | <b>7,744</b>            | <b>9,439</b>                | <b>9,700</b>            |
| 1. सिविल जमाराशियां                                            | —                                | —                       | —                           | —                       | 12,142            | 6,922                   | 6,700                       | 6,900                   |
| 2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां                               | —                                | —                       | —                           | —                       | 8,000             | —                       | 465                         | 500                     |
| 3. सिविल अग्रिम                                                | —                                | —                       | —                           | —                       | 28                | 2                       | 74                          | 100                     |
| 4. अन्य                                                        | —                                | —                       | —                           | —                       | 99                | 820                     | 2,200                       | 2,200                   |
| <b>X. उचित और विविध (1 से 4)</b>                               | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>40,171</b>     | <b>284,810</b>          | <b>318,262</b>              | <b>590,780</b>          |
| 1. उचित                                                        | —                                | —                       | —                           | —                       | 14,158            | 1,560                   | 12,500                      | 13,000                  |
| 2. नकद शेष निवेश लेखा                                          | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | 1,000                   | —                           | —                       |
| 3. आरबीआई के साथ जमा                                           | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | 15,000                  | 296,000                     | 300,000                 |
| 4. अन्य                                                        | —                                | —                       | —                           | —                       | 26,013            | 267,250                 | 9,762                       | 277,780                 |
| <b>XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन</b>                         | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                |
| <b>XII. विविध पूंजी प्राप्तियां</b>                            | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                |
| जिसमें से: विनिवेश                                             | —                                | —                       | —                           | —                       | —                 | —                       | —                           | —                       |
| <b>XIII. विप्रेषण</b>                                          | <b>—</b>                         | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                | <b>—</b>          | <b>—</b>                | <b>—</b>                    | <b>—</b>                |

— : शून्य / नगण्य / उपलब्ध नहीं।

\* : मद I से XIII का जोड़, जहां मद V से XI, XIII और II (3) निवल आधार पर हैं, जबकि मद II(6) और X (2 और 3) अपवर्जित हैं। मद II (6) और X (2 और 3) को समग्र अधिशेष/ घाटे के लिए वित्तपोषण मदों के रूप में लिया गया है।

# : भारत के संविधान के अनुसार, राज्य बाह्य एजेंसियों से सीधे संसाधन नहीं जुटा सकते हैं।

@ : भूमि मुआवजा बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सीडब्ल्यूसी आदि, से लिए गए ऋण शामिल हैं।

+ : आवास, वाहन की खरीद, त्योहार, विवाह, आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों से लिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली शामिल है।

\*\* : शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है।

इसके अलावा परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।